



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 1980/चैत्र 22, 1902
No. 138] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 1980/CHAITRA 22, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1980

का०आ० 245(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख की प्रवृत्त होंगे।

2. अधिप्रमाणन (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 की अनुसूची में, “औद्योगिक विकास विभाग” शीर्ष, के नीचे क्रम संख्या 2 और उस से सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:—

“3. तकनीकी विकास महानिदेशालय निवेशक (प्रशासन)

4. वार्षिक सलाहकार का कार्यालय	अपर वार्षिक सलाहकार
5. औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो	सचिव
6. औद्योगिक आकस्मिकता महानिदेशालय	सहायक निदेशक
सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय	संयुक्त सीमेंट नियंत्रक
8. वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय	संयुक्त वस्त्र प्रायुक्त (पी)
9. हथकरघा विकास प्रायुक्त का कार्यालय	संयुक्त विकास प्रायुक्त

[सं० एफ० 23/1/80-पब्लिक]

के० बनर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April 1980

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, under the heading "DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT" after serial No. 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

"3. Directorate General of Technical Development	Director (Administration).
4. Office of Economic Adviser	Additional Economic Adviser
5. Bureau of Industrial Cost and Prices	Secretary
6. Directorate General of Industrial Contingency	Assistant Director.
7. Office of Cement Controller	Joint Cement Controller.
8. Office of Textile Commissioner	Joint Textile Commissioner (P)
9. Office of Development Commissioner for Hand-looms.	Joint Development Commissioner."

[No. F. 23/1/80-Public]

K. BANARJI, Jt. Secy.